



## इन्डियन ग्रामीण सर्विसेस

# Bandhavgarh Livelihood Project

### *Alternative livelihoods reducing forest*

सर्व प्रथम आजीविका परियोजना मानपुर के विजिट हेतु वन विभाग से भोपाल से आये हुए CCF सर व उनके साथ डिप्टी डायरेक्टर सर व वन विभाग ताला एवं मानपुर से SDO सर व रेन्जर सर व वन विभाग के कर्मचारी व बरिष्ट कृषि बिस्तार अधिकारी श्री संखनारायण मिश्रा सर जी व इन्डियन ग्रामीण सर्विसेस के कर्मचारी के द्वारा गाव का दौरा किया गया। जिसमे सर्व प्रथम ग्राम देवरी में किसान श्री हरवंश सिंह गोंड ड्रिप से मिर्ची की खेती और अदरक की खेती को देख कर किसान श्री हरवंश सिंह की सराहना की



इसके दौरान यह भी चर्चा की गई की इससे जंगली सूअर से कोई नुकसान नहीं होता और वाकी की फसल जंगली सूअर द्वारा नष्ट हो जाती है। जिससे हमने इन्डियन ग्रामीण सर्विसेस द्वारा यह मिर्ची और अदरक की खेती करने की राय व खेती करने की सुरुआत की जिससे हम सफल हुए। इसके बाद

किसान श्री देवेन्द्र सिंह व् श्री मति अहिल्या सिंह ग्राम दमना और श्री मति देवती बैगा ग्राम घघौड़ के किसानो अपनी सरसों के बारे में बताया की हम पहले सरसों की खेती पहले छितक्वा विधी से कर देते थे | उससे हमको बहुत कम मात्रा में उपज होती थी और उस सरसों को सूअर भी नुकसान कर जाता था और हम परेसान रहते थे की अब हम कैसे क्या करे फिर उसके बाद इन्डियन ग्रामीण सर्विसेस से अधिकारी व् कर्मचारी आये और हमको बहुत कम बीज में लाइन में रोपाई १० दिन के पौधे लगभग 50 ग्राम पीली सरसों की बेड , नर्सरी करवाए और बोले की इसको एक एकड़ में ४८०० पौधे की रोपाई करनी है | उसके बाद जिस तरह से इंडियन ग्रामीण सर्विसेस के कार्यकरता व् वह हमने करते गये जिससे हम सरसों की खेती में सफल हो गये | जो की सरसों की उपज प्रति एकड़ लगभग 8.50 क्विटल रही ,



### श्री पद्धति से सरसों की फसल दिखाते हुए ग्राम दमना कृषक श्री देनेंद्र सिंह

इसके बाद ग्राम दमना की मंदिर में किसानो के साथ व् एको बिकास समिति ग्राम दमना व् घघौड़ गाटा के सदस्यों के साथ मीटिंग की और निम्न प्रकार की चर्चा भी की गई | १ . फसल नष्ट सूअर व् अन्य जानवर के वारे में चर्चा की जिसमे भोपाल से आये हुए CCF सर व् उनके साथ डिप्टी डारेक्टर सर ने बताया की हम इसी योजना के लिए यहाँ बैठक आयोजन की है गाव के बहार हम सोलर पैनर व् फिसिन्ग लगवा दे गे जिससे आपके खेत व् गाव में सूअर व् अन्य जानवर नही आयेगे जिससे गाव के किसान यह प्रस्ताव परित नही किया २ . जलाऊ लकड़ी की चर्चा किसानो ने की जिससे गाव के लोग

जंगल पर जाते हैं और जनहानी हो जाती है जिससे हम परेशान रहते हैं | CCF सर द्वारा गैस सलेंदर दे दिया जय तो गाव के किसान जंगल नहीं जायेगा |



**ग्राम दमना में किसानों की मीटिंग सी सी अफ सर और डायरेक्टर श्री रमन सिंह सर जी**

इस मीटिंग के दौरान दिनांक 8/3/2016 को ग्राम बासा में 50 लोगों को गैस सलेंदर वितरण डिप्टी डायरेक्टर श्री रमन सिंह सर द्वारा किया गया जिसमें ग्राम दमना ग्राम घघौड़ व गाटा और ग्राम बासा के किसानों को निशुल्क में दिया गया |